

Safety information स्रक्षा जानकारी Critical usage warnings महत्वपूर्ण उपयोग चेतावनियाँ

- ्र WARNING चेतावनी

- Do not insert hands, feet or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom Do not insert nanos, feet of instal objects (sout in a singustices, etc.) into the bostom of the back of the refrigerator.

 This may result in an electric shock or injury.
 Any sharp edges may cause a personal injury.
 Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
 This may cause frostbite.
 Do not put a container filled with water on the refrigerator.

- f spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- gas, alcohol, ether, LP gas, and other such products) in the refrigerator
- गीले हाथों से बिजली का प्लग बिजली के सॉकेट में नहीं लगाएँ।
- इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है। उपकरण के शीर्ष पर सामान न रखें।
- जब आप दरवाजा खोलते या बंद करते हैं, तो सामान गिर सकते हैं तथा उससे ट्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है और/या उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकता है। हाथों, पैरों या धातु की वस्तुओं (जैसे चॉपस्टिक, आदि) को रेफ़्रिजरेटर के निचले
- या पिछले भाग में न डालें। इसके कारण बिजली का झटका या चोट लग सकती है।
- किसी भी नकीले किनारे से व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है।
- गीले हाथों से फ्रीजर के अंदरूनी दीवारों या फ्रीजर में रखे उत्पादों को न छुएँ। इससे शीतदंश हो सकता है।
- पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें।
- इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है।
- फ़्रीज में अस्थिर या ज्वलनशील वस्तुओं या पदार्थी (बेन्ज़ीन, थिनर, प्रोपेन गैस,
- अल्कोहल ईथर, LP गैस और ऐसे अन्य उत्पाद) न रखें। यह रेफ़िजरेटर केवल भोजन के भंडारण के लिए है।
- इसके कारण आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है।

Safety information सुरक्षा जानकारी

- यदि रेफ़्रिजरेटर में पानी भर गया है, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें। रेफ़्रिजरेटर के अंदर या बाहर पानी का सीधा छिडकाव न करें। ् इसरे बिजली के झटके या आग का जीखिम होता है। • अपने रेफ़िजरेटर के दरवाजे के बिन्स में वनस्पति तेल न रखें। तेल जम सकता है,
- रेफ़्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सखाने के लिए हेयर डायर का उपयोग न करें। उसका स्वाद खराब हो सकता है और उसका इस्तेमाल करना मश्किल हो सकता है। इसके अलावा, खुले कंटेनर से रिसाव हो सकता है और टपके हुए तेल से दरवाजे
- के बिन में दरार पैदा हो सकती है। तेल के कंटेनर को खोलने के बाद उसे • प्रदर्शन पर सफाई उत्पादों को सीधे स्प्रे न करें।
- अलमारी या पेंट्री के शीतल और छायादार स्थान में रखना उचित होता है। वनस्पति तेल के उदाहरण: जैतृन का तेल, मकई का तेल, अंगूर के बीज का तेल, आदि। प्रदर्शन पर लगे मदित पत्र छट सकते हैं। जमे हुए भोजन को भंडारण में भोजन के सीथे संपर्क में न रखें। • ताजे फूलू और सब्जियों को ठंडे डिब्बे में न रखें जो कम तापमान पर आसानी से खराब

Cleaning cautions सफ़ाई सावधानियाँ \Lambda CAUTION सावधान

- ↑ CAUTION सावधान

 Do not spray water directly on the inside or outside the refrigerator.

 There is a risk of fire or electric shock.

 Do not tose a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.

 Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.

 This may result in an electric shock or fire.

 Do not spray cleaning products directly on the display.

 Printed letters on the display may come off.

 If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.

 Falling to do so may result in an electric shock or fire.

 Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.

 Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.

 Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

 Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning.

 They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.

- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
 It may cause a personal injury or material damage.

- or cleansers containing petroleum products on exterior surfaces (doors and cabinet), plastic parts, door and interior liners, and gaskets.

 These can scratch or damage the material.

 Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impacts such as bumping or dropping. • काँच के शेल्फ या कवर्स को ठंडे होने पर गर्म पानी से साफ ना करें। तापमान में अचानक परिवर्तन या बम्पिंग या गिरने जैसे प्रभावों से काँच के शेल्फ या कवर्स

Contents सामग्रियाँ

Safety information सुरक्षा जानकारी Important safety symbols and precautions: महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ: 5 Severe warning signs for transportation and site परिवहन और साइट के लिए गंभीर चेतावनी चिहन 5 Critical installation warnings महत्वपूर्ण स्थापना चेतावनियाँ Installation cautions स्थापना सावधानियाँ 11 Critical usage warnings महत्वपूर्ण उपयोग चेतावनियाँ Usage cautions उपयोग सावधानियाँ 16 Cleaning cautions सफ़ाई सावधानियाँ 19 21 Critical disposal warnings महत्वपूर्ण निपटान चेतावनियाँ Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त यक्तियाँ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as 23 यह उपकरण केवल घरेलू या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश 23 24 Installation स्थापना 24 Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नज़र में Step-by-step installation चरण-दर-चरण स्थापना 25 28 Operations परिचालन 28 Feature panel विशेषता पैनल Special features विशेष स्विधाएँ 35 Maintenance रखरखाव 36 Handle and care प्रबंधन और देखभाल Cleaning सफ़ाई 37 Replacement प्रतिस्थापन 39 Troubleshooting समस्या-निवारण General सामान्य Card warranty

- Safety information स्रक्षा जानकारी • बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि उनका उपकरण के साथ न खेलना सनिश्चित किया जा सके।
- बच्चों को दरवाजा या दरवाजा पात्र से लटकने न दें। गंभीर चोट लग सकती है।
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
 Do not let children hang on the door or door bins. As erious injury may occur.
 Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
 Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
 Any sharp edges may cause personal injury.
 Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator. to not some promine eventual products, scientific materials, or temperature seasons products in the refugerator.

 Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator bo not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer. अपने हाथों को उपकरण के नीचे तल क्षेत्र में डालें।
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.

 If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service on the contact your Samsung Electronics service and the contact your Samsung Sams

- you assisting leakthous service collect.

 If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electrons and the process of the Collectrons and the Colle
- refrigerator.

 Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.

 This may result in an electric shock or fire.

- This may result in an electric shock or free.

 Fill the water tank, ice rray and water cubes only with potable water (mineral water or purified water).
 Do not fill the tank with tea, luice or sports drink, this may damage the refrigerator.

 Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted digarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on the appliance.

 If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
 Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
 Do not damage the refrigerant circuit.

- Safety information सुरक्षा जानकारी
- डससे आग या बिजली के झटके का खतरा होता है।
- दुर्गंध हटाने के लिए रेफ़्रिजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें। इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- अगर कोई बाहरी पदार्थ जैसे पानी उपकरण में प्रवेश कर गया है, तो बिजली के प्लग को निकाल दें और अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

सफाई या रखरखाव करने से पहले, उपकरण का प्लग दीवार के सॉकेट से निकाल दें।

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है।

रेफ़्रिजरेटर को साफ़ करने के लिए रेफ़्रिजरेटर स्पंज या मुलायम कपड़े और गर्म

• बाहरी सतहों (दरवाजे और कैबिनेट), प्लास्टिक के हिस्सों, दरवाजे और इंटीरियर

लाइनर और गैस्केट को खुरदुरे या रूखे क्लीनर, जैसे कि खिड़की के स्प्रे, मार्जक, ज्वलनशील तरल पदार्थ, म्यूरीएटिक एसिड, क्लीनिंग वैक्स, गाढ़े डिटर्जेंट, ब्लीच

पानी में सौम्य डिटर्जेंट का प्रयोग करें।

इससे सामग्री पर खरोंच या नुकसान हो सकता है।

या क्लीनर का प्रयोग न करें।

- ease dispose of the packaging material from this product in an nvironmentally friendly manner. In sure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged into to disposal, such as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If this refrigerant contains flammat gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.

 When disposal of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Childrend the provided the provided the provided the provided the new that the propriets the standard has provided the new that they do not play with the appliance. ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है। बिजली के प्लग से किन्हीं बाहरी पदार्थ या धूल हटाने के लिए साफ़, सूखे कपड़े
- का उपयोग करें। प्लग साफ करते समय गीले या नम कपडे का उपयोग नहीं करें।
- अन्यथा इससे आग या बिजली के झटके का खतरा होता है। उपकरण पर सीधे पानी का स्प्रे करके उसे साफ न करें। • कपया इस उत्पाद की पैकेजिंग समग्री का निपटान पर्या वरण-अनुकल तरीके से करें। सफाई के लिए बेंजीन, थिनर, या क्लोरोक्स, क्लोराइड का उपयोग न करें।
- निपटान से पहले सुनिश्चित करें कि रेफ़्रिजरेटर के पीछे लगा कोई भी पाइप - वे उपकरण की सतह को क्षति पहुँचा सकते हैं और आग लगा सकते हैं। क्षतिग्रस्त नहीं है। R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपने डिस्पेंसर के छिद्र में उंगलियाँ या अन्य वस्तएँ कभी न डालें। - इससे निजी चोट लग या सामग्री की क्षर्ति हो सकती है।
 - रेफ़िजरेटर के लिए प्रशीतक के प्रकार को देखने के लिए उपकरण के पीछे या फ्रिज के अंदर रेटिंग लेबल पर कंप्रेसर लेबल को देखें। यदि इस रेफ्रिजरेटर में (प्रशीतक R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर, इस उत्पाद के सुरक्षित निपटान के मंतंध में भपने म्थानीय पाधिकरण मे मंपर्क करें।
 - निपटान के सबय में अपन स्थानाथ प्राथिकरण से संपक्त करे। इस रेफ्रिजरेटर का निपटान करते समय, दरवाज़ा/दरवाज़ा की सील, दरवाज़ा की सिटकनी निकाल दें ताकि छोटे बच्चे या जानवर इसके अंदर न फँस जाएँ। बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि उनका उपकरण के साथ न खेलना सुनिश्चित किया जा सके। अंदर फँस जाने पर, बच्चों को चोट लग सकती है या दम घटने से मृत्य हो सकती है।
 - अंदर फँसने पर बच्चों को चोट लग सकती है और दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। रोधन में साइक्लोपेंटन का उपयोग होता है। रोधन सामग्री में मौजूद मेंसी के लिए विशेष निपटान प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इस उत्पाद के पर्यावरण की हण्टि से सुरक्षित निपाटन के सबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरणों से सर्थक केंद्र सभी पैकेजिंग सामग्रियों को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, क्योंकि पैकेजिंग
 - सामग्रियाँ बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। यदि कोई बच्चा अपने सिर पर बैग रख लेता है, तो बच्चे का दम घूट सकता है।

सूखी बर्फ, दवाई या रसायनों का उपयोग रेफ़्रिजरेटर के पास न करें या उन्हें

रेफ़्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सूखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग न करें।

टंकी में चाय, जूस या खेल संबंधी पेय-पदार्थ न भरें, इससे रेफ़्रिजरेटर को

• उपकरण के उपर खड़े न हों या उपकरण पर वस्तएँ (जैसे धलने वाले कपड़े, जली

इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती हैं। पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें।

विहिमीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्माता दुवारा अनशिसित मशीनी उपकरण त्या किसी दूसरे उपाय के अलावा किसी अन्य उपकरण या उप य का उपयोग न करें।

रेफ्रिज़रेटर की नाबियां बच्चों की पहुंच के भीतर न रखें क्योंकि इससे बच्चों के अंदर बंद होने की

मोमबत्ती, जली सिगरेट, थालियाँ, रसायन, धातु की वस्तुएँ आदि) न रखें।

इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है।

दुर्गंध हटाने के लिए रेफ़िजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें। - इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। • पानी की टंकी, बर्फ की ट्रे और पानी की न्यूब को केवल पीने योग्य पानी (मिनरल वॉटर या परिष्कत पानी) से ही और।

रेफिजरेटर के अंटर न रखें।

क्षति पहँच सकती है।

प्रशीतक सकिंट को क्षिति न पहँचाएँ।

- उंगलियों को "पिंच-पॉइंट" क्षेत्रों से दूर रखें। दरवाज़ों और कैबिनेट के बीच का
- स्थान आवश्यक रूप से छोटा होता है। दरवाजा खोलते समय सावधान रहें
- बच्चों को रेफ़्रिजरेटर के भीतर जाने नहीं दें। वे अंदर फंस सकते हैं।
- किसी भी नुकीले किनारे से व्यक्तिगत चोट लग सकती है।
- रेफ्रिजरेटर में औषधीय उत्पादों, वैज्ञानिक सामग्रियाँ, या तापमान-संवेदी उत्पादों को न रखें। ऐसे उत्पादों को रेफ़्रिजरेटर में नहीं रखा जाना चाहिए जिनके लिए सख्त तापमान नियंत्रणों की आवश्यकता होती है।
- रेफ़्रिजरेटर/फ़्रीजर के अंदर बिजली के उपकरण को न रखें या उनका उपयोग न करें, बशर्ते वे निर्माता द्वारा अनुशंसित श्रेणी के हों।
- अगर आपको औषधि या धएँ की गंध आती है, तो तरंत बिजली का प्लग निकाल
- दें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
- अगर रेफ़्रिजरेटर में धल या पानी है, तो बिजली के प्लग को निकाल दें और अपने
- Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। अन्यथा. आग लगने का जोखिम बना रहता है। बच्चों को डॉअर पर पैर रखने न दें।

़ WARNING चेतावनी

- ड्रॉअर ट्रंट सकता है और वे फिसल सकते हैं।
- जब रेफ़्रिजरेटर के पास कोई न हो तो उसके दरवाज़ों को खुला न छोड़ें और बच्चों को रेफिनरेटर के भीतर प्रतेश स करते हैं।
- शिशओं और बच्चों को दराज के भीतर न जाने दें।
- इंसके कारण फंसने की वजह से दम घुटने से मृत्यु हो सकती है या निजी चोट लग सकती है। - जब आप दरवाजा खोलते हैं, तो कोई सामान गिर सकता है तथा उससे

Critical disposal warnings महत्वपूर्ण निपटान चेतावनियाँ

- रेफ़्रिजरेटर को खाद्य पदार्थों से ज्यादा न भर दें। व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है या सामग्री क्षतिग्रस्त हो सकती है।

 • उपकरण की सतह पर कीटनाशक जैसे ज्वलनशील पदार्थ का स्प्रे न करें।
- मानवों के लिए खतरनाक होने के साथ-साथ, इसके परिणामस्वरूप बिजली का झटका, आग लग सकती है, या उत्पाद में समस्याएँ आ सकती हैं। किन्हीं तापमान संवेदी पदार्थों जैसे ज्वलनशील स्प्रे, ज्वलनशील वस्तएँ

Safety information सरक्षा जानकारी

Additional tips for proper usage

Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.

Do not put fridge shelf in upside down. Shelf stopper could not work.
It may cause a personal injury because of glass shelf drop.

Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.

If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of gintion, and air the room in which the appliance is standing for several m
Do not touch the appliance or power cord.

- उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त यक्तिये
- In the event of a power failure, call the local office of your electric company and ask how long the failure is going to last.

 Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.

 Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen for The refrigerator might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) if sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the temperatures for which the appliance is designed. In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.

 Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically. Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements. If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, warp the frozen food in several layers of newspaper. Do not re-freeze frozen foods that have thaved completely.
- The temperature of two star section (sections) or compartment (compartments) which have two star symbol () is slightly higher than other freezer compartmen (compartments). The two star section (sections) or compartment (compartments) is (are) based on the instruction and/or the condition as delivered.

 Do not exceed the storage time recommended by the food manufacturers for
- बिजानी की खराबी होने की स्थिति में, अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी के स्थानीय कार्यालय को फ़ोन करके पूछे कि बिजानी कितनी देर तक बंद रहेगी। · एक या दो घटों में मधार ली जाने वाली अधिकतर बिजली खराबियाँ आपके
- रेफ़्रिजरेटर तापमानों को प्रभावित नहीं करेंगी। हालाँकि, बिजली न होने पर आपको दरवाजा बार-बार नहीं खोलना चाहिए। लेकिन अगर बिजली 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं आती है, तो सभी फ्रोजन खाद्य पदार्थों को निकालें और फेंक दें। रेफ़्रिजरेटर संभवतः लगातार काम न कर सके (फ्रोजन सामग्रियों में गरमाहट आ सकती है या फ़्रोजन कंपार्टमेंट में तापमान बह्त गर्म हो सकता है) यदि इसे किसी

ऐसे स्थान पर लंबे समय के लिए रखा जाएँ जहाँ का परिवेशी वायु तापमान उस

तापमान से लगातार कम हो जिसमें काम करने के लिए इस उपकरण को तैयार किया गया है। • विशेष खादय पदार्थों के मामले में उन्हें प्रशीतन के तहत रखने से उनके गुणों के संरक्षण पर बुरा असर हो सकता है।

Safety information सुरक्षा जानकारी

- appliance offers safely and efficiently.

 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance, cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- without supervision.

 Warnings and Important Safety instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing maintaining, and operating your applicance acteristics.

 Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns,
- contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

 R-600a of R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerant. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- your rocal autmortty in regard to safe disposal of this product.

 In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.

 Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m² in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- ne amount of rerrigerant in your particular appliance is snown on the identification plate inside the appliance.

 Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately.

 Failing to do so may result in fire or explosion.

 It is hazardous for anyone other than an Authorised Service Person to service this appliance.
- Warning: Risk of fire / Flammable materials चेतावनी: आग लग सकती है / ज्वलनशील सामग्रियाँ

Safety information स्रक्षा जानकारी

- रेफ़्रिजरेटर को आर्द्रता वाले स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर स्थापित न करें जहाँ यह पानी के संपर्क में आ सकता हो। विद्युतीय हिस्सों पर खराब विद्युत-रोधन के कारण बिजली के झटके या आग
- लग सकती है। • इस रेफ़्रिजरेटर को सीधे सूर्यप्रकाश में न रखें या इसे स्टोव, रूम हीटर या अन्य
- उपकरणों की गर्मी से दूर रखें।
 एकाधिक पावर स्ट्रिप में अनेक उपकरणों के प्लग न लगाएँ। रेफ़्रिजरेटर का प्लग
- हमेशा अपने बिजली के आउटलेट में लगा होना चाहिए जिसकी वोल्टेज रेटिंग रेफ्रिजरेटर की रेटिंग प्लेट में सचीबद वोल्टेज से मेल खाती हो। इससे सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन मिलता है और इससे घर का वायरिंग सर्किट
- ओवरलोड होने से भी बचता है, जिससे अत्यधिक गर्म तारों से आग का खतरा यदि दीवार का सॉकेट ढीला हो, तो उसमें पावर प्लग न लगाएँ।
- इससे बिजली के झटके या आग का जोखिम होता है। • ऐसे किसी बिजली की तार का उपयोग न करें जिसकी पूरी लंबाई या किसी छोर में टगरें या गर्षण क्षति तत्त्वर भा रही हो।
- बिजली के तार को अधिक न मोड़ें या इस पर भारी चीजें न रख दें।
- बिजली के तार को नहीं खींचे या बहुत अधिक नहीं मोड़ें बिजली के तार को मरोई या बाँधें नहीं।
- बिजली की तार को धात की बनी हई किसी वस्त पर ना टाँगे, बिजली की तार पर कोई भारी वस्त् को नाँ रखें, बिजली की तार को वस्त्ओं के अंदर ना डालें,
- या बिजली की तार को उपकरण के पीछे के स्थान में ना दबाएँ • रेफ़्रिजरेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के समय, बिजली की तार के मुड़ने या क्षतिग्रस्त नहीं होने का ध्यान रखें।
- इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। • अपने रेफ़्रिजरेटर को बिजली की तार खींच कर कभी भी अनप्लग न करें। प्लग को हमेशा सख्ती से पकड़ें और आउटलेट से सीध में निकालें।
- तार में क्षति के कारण शॉर्ट-सर्किट हो सकता है, आग और/या बिजली का झटका लग सकता है।
- इस उपकरण में विस्फोटक पदार्थी जैसे कि ऐरोसॉल के डिब्बे को ज्वलनशील प्रणोदक के साथ नहीं रखें। • इस उपकरण को किसी हीटर या ज्वलनशील सामग्री के पास स्थापित न करें

- Safety information स्रक्षा जानकारी
- इससे पराबेंगनी किरणों के कारण आँखों को नकसान हो सकता है। फ्रीज शेल्फ़ उल्टा न लगाएँ। शेल्फ़ स्टॉपर शायद काम न करे।
- इससे काँच की शैल्फ के गिरने के कारण निजी चोट तग सकती है।
 उंगलियों को "पिंच-पॉइंट" क्षेत्रों से दूर रखें। दरवाज़ों और कैबिनेट के बीच का स्थान आवश्यक रूप से छोटा होता है। दरवाजा खोलते समय सावधान रहें यदि बच्चे आसपास हों। • यदि गैस रिसाव का पता लगता हैं, तो अग्नि या प्रज्वलन के संभावित स्रोत
- से बचें और उपकरण वाले कमरे में कछ समय तक हवा आने दें। उपकरण या बिजली के तार को ने छएँ।
- किसी हवादार पंखे का उपयोग न करें। एक चिंगारी से विस्फोट या आग लग सकती है।
 केवल निर्माता या इसके सर्विस एजेंटों द्वारा प्रदान की गई LED लैंप का ही उपयोग करें।
- बोतलों को एकदम सटाकर रखना चाहिए ताकि वे गिर न जाएँ।
 यह उत्पाद घरेलू परिवेश में केवल खाद्य पदार्थ के अंडारण के लिए नियत है।
 स्वयं रेफ़्रिजरेटर की मरम्मत, उसके पुर्जे खोलने या उसे रूपांतरित करने का प्रयास न करें।
- अनधिकृत रूपांतरण से स्रक्षा संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। अनधिकृत रूपांतरण को पर्णतयाँ पलटने के लिए. हम पार्टस और श्रम की परी लागत लेंगे। मानक फ्यूज़ के अलावा किसी अन्य फ्यूज़ (जैसे ताँबे, स्टील के तार, आदि) का उपयोग न करें।
- यदि आपके रेफ़्रिजरेटर को मरम्मत या पुनः स्थापित करने की जरूरत है. तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें। - ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है, आग
- लग सकती है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है।
- If the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your nearest service center. If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug the refrigerator immediately and contact your Samsung Electronics service center. Falling to do so may result in an electric or fire hazards. . Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the

- आपका उपकरण तुषार मुक्त है, जिसका अर्थ है कि अपने उपकरण को मैन्य्अल रूप से विहिमीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वचालित रूप से हो जाएगा। विहिमीकरण के दौरान तापमान में बढोतरी ISO अपेक्षाओं का अनपालन करती है।
- अगर आप उपकरण के विहिमीकरण के दौरान फ़ोजन खाद्य पदार्थ के तापमान में अनावश्यक वृद्धि से बचना चाहते हैं, तो फ़्रोजन खाद्य पदार्थ को समाचारपत्र की उन जमे भोजनों को फिर न जमाएँ जो परी तरह पिघल चकें हैं।
- दो सितारा चिन्ह वाले दो सितारा खंड (खंडों) या कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंटस) का तापमान, (三) अन्य फ्रीजर कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंटस) से थोड़ा अधिक होता है। दो सितारा खंड या कंपार्टमेंट निर्देश पर और/या सपर्ट करते समय की स्थिति पर भाधारित होते हैं • व्यावसायिक रूप से जल्दीं से जमे हुए भोजन के लिए खाद्य निर्माताओं द्वारा अनुशंसित भंडारण समय से अधिक न हो
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as यह उपकरण केवल घरेलू या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि
- द्कानों, कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों में कर्मचारियों के लिए बने रसोईघरों में; • फ़ार्म हाउस में और होटलों, मोटलों और अन्य आवासीय स्थानों पर क्लाइंट द्वारा; • तिश्राम भौर खान-पान ताने परितेश में:

Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश

1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864), 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864)

अपना नया Samsung रेफ्रिजरेटर का उपयोग करने के पहले. कपया इस मैन्यअल को पूरी तरह पढ़ लें ताकि यह स्निश्चित हो सके कि आपको उन स्विधाओं और

- फ़ंक्शन के संचालन के बारे में पता है जो आपका नया उपकरण सुरक्षित और दक्ष तरीके से पेश करता है। यह उपकरण क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमता वाले व्यक्तियों
- (बच्चों सहित) के, या उन व्यक्तियों के उपयोग हेत नहीं बनाया गया है जिनमें अनुभव और ज्ञान की कमी हो, बशर्ते उन्हें उनकी स्रक्षा के लिए किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, या उपकरण के उपयोग संबंधी निर्देश प्रदान किया गया हो
- इस उपकरण का उपयोग 8 साल या उससे बड़े बच्चों तथा क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमताएँ या कम अनुभव एवं ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें उपकरण को सरक्षित तरीके से उपयोग से जड़े पर्यवेक्षण या निर्देश प्रदान किए गए हैं और वे इससे उत्पन्न ख़तरों को समझते हैं। बच्चों को उपकरण के साथ नहीं खेलने देना चाहिए। पर्यवेक्षण के बिना बच्चों को सफाई और उपयोगकर्ता रखरखाव नहीं करना चाहिए।
- इस नियम-पुस्तिका में चेतावनी एवं महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशों में घटित हो सकने वाली सभी संभव परिस्थितियाँ तथा स्थितियाँ नहीं शामिल हैं।यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्थापित, रखरखाव, तथा अपने उपकरण का संचालन करते समय सह
- ज ज्ञान, सतर्कता एवं सावधानी का प्रयोग करें। चँकि ये निम्नलिखित संचालन निर्देश विभिन्न मॉडल पर लाग होते हैं. इसलिए आपके रेफ़्रिजरेटर की विशेषताएँ इस मार्गदर्शिका में वर्णित विशेषताओं से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और हो सकता है सभी चेतावनी चिहन लागू न हों। अगर आपके कोई प्रश्न या शंकाएँ हैं, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें या
- www.samsung.com पर ऑनलाइन सहायता और जानकारी प्राप्त करें। R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपने रेफ़्रिजरेटर के लिए प्रशीतक के प्रकार को देखने के लिए उपकरण के पीछे या फ्रिज के अंदर रेटिंग लेबल पर कंप्रेसर लेबल को देखें। इस उत्पाद में (प्रशीतक R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर, इस उत्पाद के सुरक्षित निपटान के संबंध में
- अपने स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करें। प्रशीतन सर्किट में रिसाव पाए जाने की स्थिति में ज्वलनशील गैस-वायु मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए, उपकरण वाले कमरे का आकार प्रयक्त प्रशीतक की मात्रा पर निर्भर हो सकता है।
- इस उपकरण को किसी ऐसे स्थान पर स्थापित न करें जहाँ गैस रिस सकती हो।
- डसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। यह रेफ़्रिजरेटर आपके द्वारा उपयोग होने के पहले इस पुस्तिका में दिए निर्देशों के
- अनुसार उचित तरीके से अवस्थित और स्थापित होना चाहिए। तार को नीचे लटकाकर बिजली के प्लग को उचित स्थिति में कनेक्ट करें। - अगर आप बिजली के प्लग को उल्टा लगाते हैं, तो तार कट सकता है और आग या बिजली का झटका लग सकता है।

• रेफ़्रिजरेटर के पिछले हिस्से द्वारा बिजली के प्लग का क्चलना या क्षतिग्रस्त न

 पैकिंग सामगी को बच्चों की पहँच से दर रखें। - यदि कोई बच्चा/बच्ची अपने सिर पर पैकिंग सामग्री रख लेता/लेती है तो दम घटने के कारण मृत्य का खतरा होता है।

उपकरण इस प्रकार रखना चाहिए कि स्थापना के बाद प्लग तक आसानी से

समायोजन के लिए प्रयक्त सैप रिंग या वाटर ट्यूब क्लिप के साथ न खेलें।

यदि बच्चा स्रेप रिंग या वाटर ट्यूब क्लिप निगल जाता है तो दम

- पहँचा जा सके। े ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली के रिसाव के कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- आरंभ में उत्पाद को प्लग इन करने के पहले सभी सुरक्षात्मक प्लास्टिक परत निकाल दी जानी चाहिए। • बच्चों पर निगरानी रखी जानी चाहिए तािक यह सिन्श्चित हो सके कि वे दरवाजा
- घ्टने से मौत का खतरा होता है। स्रैप रिंग या वाटर ट्यूब क्लिप को बच्चों की पहुँच से दूर रखें। रेफ़्रिजरेटर सुरक्षित तरीके से ग्राउंड किया गया होना चाहिए।
- कोई जाँच-पदनाल या उपकरण के किसी हिस्से की सरस्मत का प्रयास करने के पहले हमेशा सुनिश्चित कर लें कि आपने रेफ़्रिजरेटर को ग्राउंड कर लिया है। बिजलों के लीकेज के कारण बिजली के
- गंभीर झटके लग सकते हैं। गैस पाइप, टेलीफोन लाइन, या अन्य संभावित बिजली-संवाहकों का उपयोग इलेक्ट्रिकल ग्राउंड की तरह कभी न करें। - बिजली लीकेज रोकने या रेफ़िजरेटर से वर्तमान लीकेज के कारण बिजली के झटके से बचने के लिए आपको रेफ़िजरेटर को ग्राउंड कर देना चाहिए।

इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है या

- Safety information स्रक्षा जानकारी
- यदि आंतरिक या बाहरी LED लैंप खराब हो जाता है, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें। • यदि रेफ़्रिजरेटर से जलने की गंध या धुआँ निकलता है, तो रेफ़्रिजरेटर को तत्काल
- अनप्लग करें और अपने Samsung इनेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली या आग के जोखिम हो सकते हैं। • रेफ़्रिजरेटर के अंदरुनी लैंप को बदलने से पहले पावर प्लग को सॉकेट से बाहर निकाल लें
- अन्यथा, बिजली के झटके का जोखिम बना रहता है। • यदि आपको गैर-LED लाइट बदलने में परेशानी होती है, तो Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें। • अगर उत्पाद में LED लैम्प लगे हैं, तो स्वयं लैंप कवर और LED लैम्प को न खोलें।
- किसी Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें। पावर प्लग को वॉल सॉकेट में ठीक से लगाएँ। खराब पावर प्लग, पावर कॉर्ड या ढीले वॉल सॉकेट का उपयोग न करें।
- इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। Usage cautions उपयोग सावधानियाँ 🕂 CAUTION सावधान
- carbonated or hizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.

 When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.

 Use only the ice maker provided with the refrigerator.

 To get the best performance from the product.

 Do not place food too close to the vents at the rear of the refrigerator as this can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the
- refrigerator.

 Do not place glass bottles or carbonated beverages into the freezer. They can freeze and break. Broken beverage containers can cause injury. Please observe maximum storage times and expiration dates of frozen goods. on ot place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer. The container may freeze and break, and this may result in injury. on ot place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or place containing in the freezer. When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and


इस उत्पाद का सही निष्टान (अपशिष्ट इसेशिट्रकत एवं इसेश्ट्रॉनिक उपकरण) पूषक संबक्षण प्रणासियों सार्व देशों में साण्] इस उत्पाद, सहस्रक उपकरणों या इसके दस्तावेजों पर स्थित चिरनांवन दर्शाता है कि इस उत्पाद, इसके हरेश्ट्रॉनिक सहस्रक उपकरणों (त्रेसे चार्कर, हेंडर्सर, USB केस्द्र) को जीवनांवन समाप्त होने पर उनका मेंपियान अन्य घरेसू करपे के साथ मही सिम्मा जाना मार्थिय। अमियोंकि उपगिष्ट नियंदान से पर्यवेखरण और

नुष्यों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, कृपया इन आइटम को अन्य प्रकार के कचरे से अलग कर दें और सामग्री संसाधनों के टीपेंकालिक पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ज़िम्मेदारी से रेसाइकत करें। सुरक्षित निपटान और रिसाइकल करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ww.samsung.com/in/support पर जाएँ या नीचे दिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 40 SAMSUNG 1800 40 7267864) 1800 5 SAMSUNG(1800 57267864) पर संपर्क करें। Installation स्थापना

स रेफ्रिजरेटर की उचित स्थापना और इसके उपयोग से पहले दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के , WARNING चेतावनी ouse or tne product packaging material in compliance with the local regulations जेटर का उपयोग इस निर्देश पुस्तिका में वर्णित नियत उद्देश्य के लिए ही करें।

 उत्पाद पैकेजिंग सामग्रियों का निपटान स्थानीय विनियमों के अनसार करें। Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नज़र में

(a) NOTE नोट e and provided component parts of the refrigerator may differ, depending



Safety information स्रक्षा जानकारी

- क्षति के लक्षण दंगित करने वाले उपकरण को कभी भारंभ न करें। भगर कोई शंका है, तो अपने डीलर से परामर्श लें। उपकरण के अंदर R-600a के प्रत्येक 8 g प्रशीतक के लिए 1m3 आकार का कमरा होना चाहिये। आपके व्यक्तिगत उपकरण में रेफ़िजरेंट की मात्रा उपकरण के भीतर लगी पहचान प्लेट पर दिखाई गई है।
- पाइपों से फुहार के रूप में बाहर छतकने वाले रेफ़िजरेंट के कारण आग लग सकती है या आँखों को चोट पहुँच सकती है। जब पाइप से रेफ़िजरेंट रिस रहा हो, तो मनावृत ज्वाला से बचे और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को उत्पाद से दूर ले जाएँ और कमरे में तुरंत हवा का संचार करें।
- ऐसा करने में विफल रहने पर आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है।
 अधिकृत सेवा कर्मचारी के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए इस उपकरण की

मरम्मेत करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। Important safety symbols and precautions: महत्वपर्ण सरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ:

े WARNING चेतावनी खतरे या अस्रिक्षित व्यवहार जिनसे गंभीर निजी चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है।

- 🕂 CAUTION सावधान
- खतरे या असुरक्षित व्यवहार जिनसे हल्की निजी चोट लग सकती है या संपत्ति की खतर या अनुताता ज्यान अवार जिल्ला हरूमा माजा याट लग समात है या समाता का सिति हो सकती हैं। ये चेतावनी संकेत आपको और दूसरों को चोट लगने से बचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कपया उनका सावधानी से पालन करें। इस खंड को पढ़ने के बाद, भावी संदर्भ के लिए उसे किसी स्रक्षित जगह पर रखें।
- Severe warning signs for transportation and site परिवहन और साइट के लिए गंभीर चेतावनी चिहन
- ी WARNING चेतावनी
- When transporting and installing the appliance care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating (cruit are damaged Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

- Safety information स्रक्षा जानकारी

- This may result in an electric shock or fire.
 This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
 Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
 If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock.
 Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator.
 Keep the packing materials out of reach of children.
 There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head.
 The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
 Falling to do so may result in an electric shock or fire due to lectric leakage.

The control of support explains the control of the performance of the control of the contro

damaged power cord, or loose wall socket.

This may result in an electric shock or fire.

If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or one of its service agents.

The fuse or the refrigerator must be changed by a qualified technician or service.

company.

- Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged

Do not locate multiple portable socket-outlos or portable

power supplies at the rear of the appliance.

to not block the air vents inside the refrigerator.

If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator

can be over cooled. If a cooling period lasts too long, the water

When the refrigerator got wet by water, pull out the power plug and contact

When the Perhydraum 304 is considered.

Our Samsung Electronics service center.

Io not strike or apply excessive force to any glass surface.

Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.

Browen grass may result in a personal injury and/or property damage.
 Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).
 Do not fill the tank with tea or a sports drink. This may damage the refrigerator

Be careful that your fingers are not caught in.
 सावधान रहें कि यह आफकी
 उंगलियाँ पर न लगे।

The lamps in the freezer and refrigerator can be turned off if the doors of the

freezer and refrigerator are left open for 2 seconds or longer.

The lamps will turn back on when the doors are closed and opened again.

If the refrigerator is flooded, make sure to contact your nearest service center.

There is a risk of electric shock or fire.

To not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. The oil can solidify,

making it foul-tasting and difficult to use. In addition, the open container
can leak and the leaked oil can cause the door bin to crack. After opening an oil
container, it is best to keep the container in a cool and shaded place such as a
cupboard or pantry.

• उन जमें भोजनों को फिर न जमाएँ जो परी तरह पिघल चके हैं। कार्बोनेट यक्त

या गैस युक्त पेय पदार्थों को फ़ीजर कंपार्टमेंट में न रखें। बोतल या काँच के

पात्रों को फ़्रीजर में न रखें। - जब अंदर रखा पदार्थ जम जाता है, तो काँच टूट सकता है और निजी चोट

त्पाद से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पान के लिए: खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर के पिछले भाग में निकासों के बिल्कुल निकट न रखें क्योंकि इससे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में स्वतंत्र वायु संचार बाधित हो सकता है। भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले उचित तरीके से ढर्क या किसी वायुरुद्ध

केवल रेफ़्रिजरेटर के साथ प्रदान किए गए आइस मेकर का उपयोग करें।

• उत्पाद से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पाने के लिए

पात्र में रखें।

Installation स्थापना

Can be over cooled. If a Goomey period loss of the sea and cause water leakage, se only the ice-maker provided with the refrigerator, lipe excess moisture from the inside and leave the doors open. Otherwise, odor and mold may develop.

- In the appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation

 Falling to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.

 Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).

 Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.

 If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your samsung Electronics service center.

 Otherwise there is a risk of fire.

 Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

 This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.

 You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.

 Children should be supervised to ensure that they do not play with the snap rings used for door adjustment or the water tube clips.

 There is risk of death by suffocation if a child swallows a snap ring or water tube clips. Let the provide the snap rings and water tube clips out of children's reach.

 The refrigerator must be safely grounded.

 Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting
 - w the appliance to stand for 2 hours before loading foods after installation
- tall the refrigerator. Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems wit the product, or injury. erload on any one door may fell the refrigerator, causing physical injury. Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause ere electric shock. use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as

क्षतिग्रस्त नहीं हों।

सप्लार्ड को नहीं होने चाहिए।

- •उपकरण की स्थापना के बाद खादय पदार्थ लोड करने और उपकरण को चाल करने के पहले व स्थानका व बाद वाद्य न्याय लाउ वर्षण आर उनगरन व पायू परा से पहले ट घंटे के लिए उसे खड़ा रखें। •हम पुरजोर अनुशंसा करते हैं कि आप किसी योग्यता प्राप्त तकनीशियन या सर्विस
 - है, विस्फोट हो सकता है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है। कारण उसे क्षति पहुँच सकती है।

कंपनी से रिफ्रिजरेटर स्थापित करवाएँ। - ऐसा करने में विफल रहने पर बिज़ली का झटका लग सकता है, आग लग सकती

- कपया फ्रोजन सामानों के अधिकतम संग्रहण समय और समापन तिथियों का
- काँच के पात्रों को फ्रीजर में न रखें। जब अंदर रखा पदार्थ जम जाता है, तो काँच टूट सकता है और निजी चोट लग
- रूपांतरण Samsung वारटी सेवा में शामिल नहीं होता है, और न ही तृतीय पक्ष के रूपांतरणों से होने वाली स्रक्षा समस्याओं के लिए Samsung ज़िम्मेदार है।
- सकता है और पानी रिस सकता है। केवल रेफ़्रिजरेटर के साथ प्रदान किए गए आइस-मेकर का उपयोग करें।
- यदि रिफ्रिजरेटर की बिजली आपूर्ति से डिस्कनक्ट कर दिया गया है, तो वापस
 प्लग इन करने के लिए आपको कम से कम पाँच मिनट तक प्रतीक्षा करना चाहिए जब रेफ्रिजरेटर पानी से भीग जाए. तो बिजली के प्लग को निकाल दें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। शीशे की सतह पर प्रहार न करें या अत्यधिक बल प्रयोग न करें।

Installation स्थापना वेस, समतल सतह बगैर किसी प्रकार के कार्पेट या फ्लोरिंग के जो कि वेटिलेशन को बाधित कर सकते हैं
 सीधी धुप से दूर
 दावाज़ा खोलने और बंद करने के लिए पर्याप्त जगह

iass raung. फ्रिजरेटर को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह अपनी श्रेणी रेटिंग में निर्दिष्ट तापमान सीमा में IS 17550 +10 to +32

पार temperature settings as appropriate. रेफिजरेटर का कृतिंग प्रदर्शन और बिजती उपभोग परिशेशी तापमान, दरवाजा खुक्ते की आवृत्ति, रेफिजरेटर के स्थान में प्रभावित हो सकता है। हम तापमान सेटिंग को उपयुक्ततानुसार समायोजित करने की अनुशंसा करते हैं. Clearance क्सीयरेस

+16 to +32

+16 to +38



Cool pack This helps keep the refrigerator cool क्**न पैक**. यह रेफिजरेटर को उंडा रक्षम में मृदद करता है। किया जाता है। आपके रीफिजरेटर में उपर सूचीबद वैकल्फिक सहायक उपकरण संभवतः शामिल न हो। वैकल्फिक सहायक

uneir original position.

• ये वैकल्पिक सहायक उपकरण उष्प्रीय और यांत्रिक प्रतर्शन को प्रमावित नहीं करते हैं।

• फ्रीजर का प्रमित संस्कृषण के व्यक्तिम उन्न वैकल्पिक सहायक उपकरणों की गैर-मौजुदगी पर आधारित होता है।

• दोनों आइस मेक्स को निकालने के लिए, पहले दाएँ वाले को निकालें (आइस मेक्स मॉडलो पर लागू)।

• सर्वश्रेष्ठ उज्जो दसता के लिए, सुनिश्यित कर कि सभी शेला, ड्रॉजर, और बस्केट अपने मूल स्थान पर लगे हों।

Load limit Indicator (applicable models only)

भार सीमा संकत्मक (केवल उपयुक्त मॉडल)

या अधिक वैकल्पिक सहायक उपकरण जैसे कि कल पैक, शेल्फ, टविस्ट आइस मेकर, बर्फ संग्रहण पात्र



Step-Dy-step Installation चरण-दर्-चर्ण STEP 1 Select a site चरण 1 कोई एक साइट चुनें Site requirements: स्थान की आवश्यकताएँ: Shid level surface without carpeting or flooring t

WARNING TIGHT

 Do not install the refrigerator in a damp location or place where it may come in contact with water.
 Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
 Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.

 Do not plug several appliances into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.

 This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.

If the wall socket is loose, do not insert the power plug.

There is a risk of electric shock of fire.

Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.

उपकरण का परिवहन और स्थापना करने समय यह सनिश्चित करने के लिए

सावधानी बरती जानी चाहिए कि प्रशीतन सर्किट का कोई भाग क्षतिग्रस्त तो नहीं है।

पाइप से रिसने वाले रेफ़िजरेंट से आग लग सकती है या आँखों को चोट पहुँच

सकती है। यदि रिसाव का पता लगता है, तो अग्नि या प्रज्वलन के संभावित

इस उपकरण में बहत कम मात्रा में इसोब्यूटेन प्रशीतलन (R-600a) मौजुद होता

है, यह अत्यधिक प्राकृतिक पर्यावरण अनुकूलता के साथ एक प्राकृतिक गैस है,

हालांकि. यह दहनशील भी है। उपकरण के स्थानांतरण एवं स्थापना के दौरान

Critical installation warnings महत्वपूर्ण स्थापना चेतावनियाँ

प्रशीतन सर्किट के किसी भी भाग का क्षतिग्रस्त न होना सुनिश्चित करने के लिए

स्रोत से बचें और उपकरण वाले कमरे में कुछ समय तक हवा आने दें।

सावधानी बरतनी चाहिए।

🕂 WARNING चेतावनी


- Do not pend the power cord excessively or place heavy objects on it.
 Do not pull or excessively bend the power cord.
 Do not this to rite the power cord.
 Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance
 When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
 This may result in an electric shock or fire.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
 Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/ or electric shock.
 On ont store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this publisher.
- पावर प्लग को वॉल सॉकेट में ठीक से लगाएँ। खराब पावर प्लग, खराब पावर कॉर्ड या ढीले वॉल सॉकेट का उपयोग न करें।

इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।

- अगर बिजली का तार क्षतिग्रस्त हो, तो इसे निर्माता या उसके किसी सर्विस एजेंट दवारा तत्काल बदलवाएँ।
- रेफ़्रिजरेटर पर लगा फ्यूज़ योग्य तकनीशियन या सर्विस कंपनी द्वारा ही बदला जाना चाहिए। - ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या निजी चोट लग सकती है। • उपकरण को रखते समय सुनिश्चित करें कि बिजली की तार उलझे हुए या

• उपकरण के पीछे एक से अधिक पोर्टेबल सॉकेट वाले आउटलेट या पोर्टेबल पावर

- Installation cautions स्थापना सावधानियाँ 🕂 CAUTION सावधान
- and turning on.We strongly recommend you have a qualified technician or service company
- •रेफ्रिजरेटर के आसपास पर्याप्त स्थान छोड़ें और इसे सपाट सतह पर स्थापित करें। उपकरण अंतः क्षेत्र या समन्वायोजन संरचना में मौजूद वायुसंचार स्थान में किसी भी तरह की रुकावटों को न आने दें।
- •िकसी भी एक दरवाज़े पर अधिक भार होने से रेफ़्रिजरेटर गिर सकता है, जिसके
- Safety information स्रक्षा जानकारी ग्लास बोतल या कार्बोनेट किए गए पेय-पदार्थों को फ्रीजर में न रखें। वे जम सकते हैं और टूट सकते हैं। पेय पदार्थों के टूटे पात्रों के कारण चोट लग सकती है।
- ध्यान रखें। ग्लास या बोतल या कार्बोनेट किए गए पेय-पदार्थों को फ़ीजर में न रखें। पात्र जम या टूट सकता है और इससे चोट लग सकती है। कार्बोनेट युक्त या गैस युक्त पेय पदार्थों को फ्रीजर कंपार्टमेंट में न रखें। बोतल या
- सकती है और संपत्ति को क्षति हो सकती है। सर्विस वारंटी और रूपांतरण।
 - इस तैयार उपकरण पर तृतीय पक्ष द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन या
- रेफ़िजरेटर के भीतर हवा के निकासी छिद्र अवरुद्ध न करें। क्षिणेटर जे नारेंद्र एक जिस्सी पहुँच अपने के पूर्व के प्रत्य हो कि अपने का के जाते हैं। विशेष रूप से प्लास्टिक बैग से, तो रेफ्रिजरेटर आवश्यकता से अधिक ठंडा हो सकता है। अगर कूलिंग अविध बहुत देर तक बनी रहती है, तो पानी का फ़िल्टर टूट
- भीतर से अधिक नमी को पींछ दें और दरवाज़ों को खुला छोड़ दें।
 अन्यथा, दुर्गंध और फफूँद उत्पन्न हो सकती है।
 - टूटे काँच से निजी चोट और/या संपत्ति को क्षति हो सकती है। पानी की टंकी और आइस क्यूब ट्रे को केवल पीने योग्य पानी (टैप का पानी ंदंकी को चाय या स्पोर्ट्स ड्रिंक से न भरें। इससे रेफ़्रिजरेटर को नकसान पहुँच सकता है। अगर फ़ीजर और रिफ़िजरेटर के दरवाज़े 2 सेकंड या अधिक समय के लिए खुले छोड़े जाते हैं, तो फ़ीजर और रिफ़िजरेटर की लैंप बंद की जा सकती हैं।
 जब दरवाज़ों को बंद करके फिर से खोला जाएगा तो लैंप वापस जल जाएंगी।



Operations परिचालन

STEP 2 Flooring चरण 2 सतह

0

 तेज़ कृतिंग के लिए तापमान कम करने के लिए तापमान नियंत्रण को लेवल 4-5 पर सेट करें। तेज़ क्लिंग के लिए तापमान बढ़ाने के लिए तापमान नियंत्रण को लेवल 1-2 पर सेट करें।
 TYPE R टाइप B



गर्मी की अन में नापमान नियंत्रण को लेवल 1-2 पर मेट न करें। दमके कारण भी कलिंग प्रदर्शन में

iconvertible) or Be level. Once setup is complete, the temperature of the freezer is controlled to about 3 °C. आप फ्रीजर का उपयोग फ्रिज मोड के रूप में करते हैं।

आप फ्रीजर का उपयोग क्रिज मोड के रूप में करते हैं। फ्रीजर के लिए फ्रिज मोड को सक्षम करने के लिए फ्रीजर तापमान नियंत्रण डायल को Fridge (Convertible) (फ्रिज (कनविद्युक्त)) या हि तेवल पर सुमारीं। सेटअप पूरा हो जाने पर फ्रीजर का तापमान लगभग 3°C तक नियंत्रित हो जाता है।

ce making (applicable models only) बर्फ़ बनाना (केवल उपयुक्त मॉडल) wist ice maker ट्विस्ट आइस मेकर

SAMSUNG

Warranty Card

2. ट्रे के पिछले अंदरुनी हिस्से में चिहिनत अधिकतम स्तर (A) तक पानी भर दें। 3. ट्रे को सरका कर वापस उसके स्थान पर लगा दें।

www.samsung.com/in/support.

1. Proof of purchase is a pre-requisite to claim warranty.

2 The product should have been purchased from an authorised Samsung Sales Dealer in India.

11. Samsung shall be free to decide on whether or not to provide a software update for its products.

6. In case of defective accessory, only the accessory will be repaired or replaced.

14. Defects caused by customer negligence, tampering shall void the product warranty. 15. Any extended/addition warranty offered by Samsung has to be supported by relevant proofs.

chargeable basis unless otherwise provided and not covered under warranty.

24. Warranty period of parts & accessories may vary from product to product. 25. Maximum liability out of this warranty is limited to the product purchase value/MRP.

Product Serial No:______ Date of Purchase: -

26 No warranty on certain parts/conditions/types of product failures

ung shall not be liable for any loss, cost, expense, ir

the purchase price of the product.

23. This warranty covers repair/replacement of parts.

Model No:.

Name: ___


Address in Full: ___

Dealer Name & Address

3. Warranty can be claimed only if the repair was carried out by the Samsung authorised service center. 4. Carry-in service or In-Home service applicability depends on the product category and Samsung policy.

STEP 4 Initial settings चरण 4 आरंभिक सेटिंग

- y completing the following steps, the retrigerator should be fully ful मिन चरणों को पूरा करने पर, रेफ़्रिजरेटर पूरी तरह से संचालनीय हो जाना चाहिए।
- 4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature. Now the refrigerator is ready for 1. रिफिज्येटर को चाल, करने के लिए बिजाजी के प्लाम को दीवार पर लगे संकेट में लगाएँ।
 2. दराजाजा खोलें, और देखें कि अंदरक्तों लाइट जले हैं या नहीं।
 3. तापमान को सबसे छेंडे तापमान पर सेट की, और लगाअग एक घंटे तक प्रतीक्षा करें। फिल, फ्रीज़र थोड़ा छंड़ा हो जाएणा और मोटर आराम दे चाल ने लगेंगी।
 4. रिफिज्येटर के तथ लापमान पर पहुँचले तक दलीक्षा करें। अब रिफिज्येटर अपयोग के लिए तैयार है।
 STEED E. Elion Check
- STEP 5 Final check चरण 5 अंतिम जाँच When installation is complete, confirm that: स्थापना पूरी हो जाने पर, पुष्टि करें कि:
- The refrigerator is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
 The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from the vali or the cabinet. He refrigerator is level and is sitting firmly on the floor. He door opens and closes freely, and the interior light turns on automatically when you
- रेफ़िजरेटर का प्लग बिजली के आउटलेट में लगा हो और रेफ़िजरेटर उचित ढंग से ग्राउंड किया गया हो।
- रेफ़िजरेटर समतल हो और फर्श पर मज़बूती से स्थापित हो।
 दरवाज़ा बिना रोक टोक खुलता और बंद होता हो, दरवाज़ा खुलने पर अंदरूनी लाइट स्वचालित रूप से जल Operations परिचालन



• शीत ऋतु में, तापमान नियंत्रणको लेवल 4-5 पर सेट न करें। इसके कारण कूलिंग प्रदर्शन में समस्याएं हो

You use the freezer as Fridge mode.

To enable Fridge mode for the freezer, turn the Freezer Temp. Control dial to a Fridge (Convertible) or

(C

ecommended to empty the fridge compartment and make sure the door is

closed. फ्रिज कंपार्टमेंट को खाली करने की कड़ी अनुशंसा की जाती है और सुनिश्चित करें कि दरवाज़ा बंद हो। Special features **विशेष सिंदुधाएँ** भावके रेफिजरेटर की ताम्नतिक रुति और तिशेष फंक्शन ऑटन और टेश के भनमार फिल्म हो सकते हैं।



 pen the rreezer door, and slide open the ice tray.
 Fill the tray with water up to the maximum level (A) marked on the inner rear of the tray.
 Slide the tray back into position. फ्रीजर का दरवाज़ा खोलें, और आइस ट्रे को सरका कर खोलें।



📵 NOTE नोट Make sure the ice cube storage bin is in place under the ice tray.
To dispense the ice cubes, turn the handle of the bin to the right to empty half of the ice cubes into the bin. Then, turn it to the left to empty the other half.

Take out the high he (light) trustifies not

पुनिश्चित करें कि आइस क्यूब संग्रहण डिब्बा आइस ट्रे के नीचे रखा गया हो। बर्फ़ के टुकडे निकालने के लिए, डिब्बे के हैंडल को दाएँ मोड़ें ताकि लगभग आधे बर्फ़ के टुकडे बाहर

ner rear of the tray. फे के दुकड़े बनाने के लिए, ट्रे के पिछले अंदरूनी अड़िस ट्रे खाली करने के लिए, ट्रे का दोनों छोर पकड़ें स्से में चिहिनत **अधिकतम स्तर (**A) तक पानी भर दीं। और बर्फ के ट्रकड़ें निकालने के लिए आहिस्ते से मोड़ें।

Maintenance रखरखाव

Helpline - Call: 1800 40 SAMSUNG (7267864) / 1800 5 SAMSUNG (7267864

venience or damage that may result from use inability to use the

Handle and care प्रबंधन और देखभाल Ice tray provided models) प्रदान किए गए आइस ट्रे के मॉडल

पहले आइस ट्रे निकालें, और फिर फ़ीजर शेल्फ को

Freezer and fridge shelves জীবন গাঁধ জীব নিক্ষ

• To remove a shelf, first open the door completely. Put the shelf forward, lift up, and the pull out.

• Do not attempt to tilt the shelf into position.

This warranty card gives the key points related to warranty claim. for further details log on to

5. Free installation or demo of the product, if applicable, can be availed only once and within 6month from the date of purchase. In case

of installation, any additional material required over and above the standard installation kit shall be on the chargeable basis

7. Cosmetic/ Aesthetic / Plastic / Glass Parts /Bulbs / Cable /Wiring / Piping/ Consumables are not covered under warranty.

12. Samsung shall not be responsible for any loss or misuse of data, personal information, setting, third party software during product usage or repair or software update.

17. In case of defect arising out of installation done by party other than Samsung authorised party, the limited warranty will be applicable as per revised T&C as Samsung shall deem fit.

18. Regular upkeep, maintenance and cleaning of parts are necessary in certain products. Such periodic maintenance shall be on

19. In the event of any unforeseen circumstances, and spares not being available Samsung's prevailing depreciation rules will be binding on the purchaser and same shall be considered as a commercial solution in lieu of repairs.

21. Complaints related to playability, printability, compatibility with external accessories, software, file systems, third party applications, CODEs, signals, Networks& ISP bandwidth shall not be considered as defect in product and not covered under warranty.

27. Under certain conditions where warranty obligations cannot be met, depreciation will be applicable on the existing product. CUSTOMER DETAILS CUM WARRANTY CARD

20. Defects arising out of the following are not covered under warranty like Mishandling/Misuse,Improper ventilation, Improper voltage, Use of external material, Normal wear and tear, Physical damage and / or electrical damage caused by physical

product. Under no circumstances shall Samsung be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage exceeding

8. The defective parts/ products which were replaced by Samsung under this warranty shall be the property of Samsung.

9. While carrying out repair, Samsung may use accessories or parts that are new or refurbished or reconditioned.

16. Usage of power stabilizers of proper rating is necessary unless explicitly mentioned by Samsung on product

22. This warranty covers only the defects in products arising out of manufacturing or faulty workmanship.

10. Samsung shall not be liable for any losses or consequential losses due to product failure or the installed software.

Do not put the shelves upside down or reverse the front and back.

*TERMS & CONDITIONS

Operations परिचालन

ver Freeze 01 फ्रीज़र / पॉवर फ्रीज़ -23 °C → -15 °C → -17 °C → -19 °C → -21 °C → -23 °C Freezer (फ्रीज़र) के बटन को -15 °C और -23 °C के बीच का फ्रीजर तापमान

सेट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है (डिफ़ॉल्ट: -19 °C)

आपके प्रत्येक बार बटन दबाने पर, तापमान निम्न कम मैं बदल जाता है: -23 °C \rightarrow -15 °C \rightarrow -17 °C \rightarrow -19 °C \rightarrow -21 °C \rightarrow -23 °C सिस्टम या खादय पदार्थ खराब होने से बचाने के लिए, गर्मी (35 °C से ऊपर

returns to the previous temperature. पॉवर फ्रीज, अधिकतम फेक गति पर प्रशीतलन गति को बढ़ा देता हैं। फ्रीजर कई ह तक पूरी गति से चलता रहता है और फिर पिछले तापमान पर लौट जाता है। 'activate Power Freeze, press and hold Freezer for 3 seconds e corresponding indicator ((3)) lights up, and the refrigerator eed up the cooling process for you. deactivate, press and hold Freezer again for 3 seconds. The

returns to the previous temperature. पाँदर फीज को सक्षिय करने के लिए, Freezer (फीजर) को 3 संबंह तक के लिए दबाकर रखी अनुकूस संकेरक (®) की शाइट पानू हो जाती है, और रेफिजरेटर आपके लिए शीवतल की गति को बढ़ा देता है। लिक्किय करने के लिए, Freezer (क्रिकर) को फिर ते 3 संकंड तक के लिए दबाकर रखी। फीजर पिछली तापमान संदिंग पर लीट जाता है। बढ़ी मार्ग में ओजन को फीज करने के लिए, जीजर में भोजन रखने से पहले पाँदर फीज बटन को कम से कम 20 प्रेट पहले संक्रिय वर्षी। गिजर 50 घंटा तक पूरी गति से चलता रहता है और फिर पिछले तापमान प

to use it. पाँवर प्रीज़ का उपयोग विजली की खपत को बढ़ाता है। यदि आपका इसका उपयोग कन्दों का इरादा नहीं है तो इसे ऑफ करना और पिछले तापमान पर लीटना सुनिश्चित करें।

seconds. Then, follow the instructions as mentioned above. आपके दुलार किए गए परिवर्तन पि प्रेसेंड के बाद देन कर दिए जाएँगे और सिक्र्य कर दिए जाएँगे। मोड को रह करने या फिर से बदलने के लिए, Freezer Convert (फीक्रद कन्बर्ट) को फिर से दबाएँ और 3 सेकेंड तक रोक कर रहें। फिर, उपर बताए गए निर्देशों का अनुसरण करें।

মত মিহুবা কা ব্যানুষ্যে কহঁ।

NOTE को
NOTE के
NOTE के

you select the Freezer setting mode, the freezer temperature ndicators turn on for your selection. The default freezer

temperature is -19 C. यदि आप फ्रिज़ का चयन करते हैं, तो फ्रिज़ का इंडिकेटर चालू हो जाता है। पॉवर

प्रीज सक्रिय होने पर निष्क्रिय हो जाएगा, और बर्फ ऑन सक्षम होने पर बंद हो जाएगा यदि आप ऑफ़ का चयन करते हैं, तो ऑफ का इंडिकेटर चालू हो जाता है।

फ्रीजर ऑफ़ हो जाएगा। यदि आप फ्रीज़र सेटिंग मोड का चयन करते हैं, तो फ्रीज़र तापमान इंडिकेटर

आपके चयन के लिए चाल हो जाते हैं। डिफॉल्ट फ्रीजर तापमान -19 °C है।

Maintenance रखरखाव Maintenance रखरखाव

शेलफ निकालने के लिए, पहले दरवाजा पूरी तरह खोलें। शेलफ को सामने की तरफ खींचें, उपर उठाएँ, और फिर बाहर खींचें।
 शेलफ को बुक्त कर उसके स्थान पर लगाने का प्रयास नहीं करें।
 शेलफ को बुक्त कर उसके स्थान पर लगाने का प्रयास नहीं करें।
 शेलफ को उत्तरा न रखें या आगं और पीछं की और उत्तरा न दें

Door bin डोर बिन

CAUTION सावधान ______ प्राचनात account, compay the about bills before removing, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, डोर बिन्स को निकालने से पहले खाली करें।

थोड़ी देर के लिए गार्ड को दबाएं, फिर ऊपर उठाएं और दरवाजा बिन से बाहर खींचें।²² (यह डोर बिन जम्बो/ फ्रेश मैक्स समायोजन योग्य नहीं हैं; यह केवल एक पोज़िशन में फ़िट होता है।) Cleaning सफ़ाई

प्लाण (स्वाता) को अने दिलायर प्राप्त है। प्लाण टर्मिनलों और संपर्क बिंदुओं से धूल या पानी जैसे सभी बाहरी पदार्थों को हटाने के लिए नियमित ने सूखे कपड़े का उपयोग करें। ल्प स सुख कपड़ का उपयोग करें। 1. Unplug the power cord of the refrigerator. 2. Use a moistened soft lint-free cloth or paper towel to clean the refrigerator's interior and exterior.

When done, use a dry cloth or paper towel to dry we or to turn the refrigerator on. रेफ़िजरेटर की बिजली की तार को प्लग से निकाल दें।

2. रेफ़िजरेटर के अंदरूनी और बाहरी हिस्से को साफ़ करने के लिए नम मुलायम रोऑ-मुक्त कपड़े या पेपर सफ़ाई पूरा हो जाने पर, अच्छी तरह से स्खाने के लिए सूखे कपड़े या पेपर टॉवल का उपयोग करें। रेफ़िजरेटर चालू करने के लिए रेफ़िजरेटर के बिजली के प्लेग को सॉकेट में लगाएँ। (2) NOTE नोट

have removed any removable parts such as shelves for cleaning, refer to the overall layout in the what's included section to make sure you have reinserted correctly. यदि आपने सफ़ाई के लिए किन्हीं हटाने योग्य हिस्सों को निकाला हो, तो क्या शामिल है अनुआग में समग्र लेआउट देखें ताकि सही ढंग से वापस लगाना सुनिश्चित हो सके।

NARNING dated

Description of the description of t

सफ़ाई के लिए बेन्ज़ीन, थिनर, या होम/कार डिटर्जेंट जैसे कि Clorox™ का उपयोग नहीं करें। वे रेफ़्रिजरेटर रेफ़िजरेटर पर पानी का छिड़काव न करें। इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है।
 डिस्पेंसर के छिद्र में उंगलियों या अन्य वस्तुएँ न डालें।

2 Freezer Convert / Ice On/Off (applicable models only) 2 फ्रीज़र कन्वर्ट / बर्फ़ ऑन/ऑफ़ (केवल लागू मॉडल)

यदि आप Freezer Convert (फ्रीज़र कन्चर्ट) को फ्रीज़र मोड में 3 सेकंड तक दावाकर रखते हैं, तो रिफ़ज़रेटर फ़िज़ मोड पर स्विच हो जाता है और आप एक मोड (ययन मोड) का चयन कर सकते हैं। यदि आप Freezer Convert (फ्रीज़र कन्चर्ट) को दूसरे मोड में 3 सेकंड तक दावाकर रखते हैं, तो रिफ़ज़रेटर ऐसे मोड पर स्विच हो जाता है जहाँ आप Freezer Convert (फ्रीज़र कन्चर्ट) मोड को दावा सकते हैं या किसी दूसरे मोड यह उत्तर कर हो है। change the default freezer mode, press and hold Freezer Convert
-3 seconds to enter the selection mode. Then, press Freezer Converselect a desired mode.

e mode changes in this sequence: Fridge — Off — Freezer — Off — जब प्रशीतन या फ्रीजिंग फ़ंक्शन 'ऑफ़ मोड पर होते हैं', फ्रिज या फ्रीजर का HIU फ्रिज़ मोड के साथ पूरे रेफ़िजरेटर का उपयोग कर सकते हैं, या फ्रीज़र को बंद तापमान 15 °C के नीचे रहता है ताकि कम बिजली का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। डिफॉर्स्ट फ्रीजर मोड बदलने के लिए चयन मोड में प्रवेश करने के लिए Freezer Convert फ्रीजर कन्बर्ट) दवाएँ और 3 सेकेड के लिए रोक कर रखें। पिर, वॉपिस मोड चुनने के लिए Freezer Convert (फ्रीजर कन्बर्ट) दवाएँ। मोड मिनन क्रम में बदल जाता है, फ्रिज → ऑफ → फ्रीजर → ऑफ → फ्रिज सेटिंग मोड कवक और दुर्गन्ध को रोका जा सके। फ्रिज़ या फ़ीज़र को अलग-अलग बंद नहीं किया जा सकता है।

Operations परिचालन

रिफ़िजरेशन या प्रशीतन के फ़ंक्शन 'ऑफ़ मोड' पर हों तब रेफ़िजरेटर में खादय या पेय पदार्थ को स्टोर ना करें। इनके खराब होने से रोकने के लिए 15 °C पर्याप्त ठंडा नहीं होता है।

Operations परिचालन

03 Fridge / Power Cool 03 फ्रिज़ / पॉवर कूल

Ine water taink is empty,
 आइस बकेट में पहले से ही बर्फ भरा हो।
 आप बिजली की खप्त कम करना चाहते हैं।
 पानी की टंकी खाली हो।
 NOTE नोट

enters lee Off mode.
यदि आप Freezer Convert (फ्रीज़र कन्चर्ट) को दबाकर फ्रिज़ या ऑफ़ को चुनते हैं, तो रेफ़िजरेटर वर्फ ऑफ मोड़ में प्रवेश करता है।

to adjust the fridge temperature, press Fridge to select the corresponding temperature. You can change the temperature betwe "C and 7 "C (default: 3 "C). With the temperature set to 1 "C, press Fridge to turn the vacation ndicator on. The temperature bar furns off, Press again to deactivat (vastion word, The temperature) bar dicator; 7 "C."

फ्रीज तापमान समायोजित करने के लिए, अनुकूल तापमान चुनने के लिए Fridge (फ्रिज़) दबाएँ। आप 1 $^{\circ}$ C और 7 $^{\circ}$ C के बीच तापमान सेट कर सकते हैं (डिफ़ॉल्ट: 3 $^{\circ}$ C)।

also cause problems with the cooling performance सदी के मौसम, ताममान नियंवण 1 "C पर सेट नहीं करें। इससे कूलिंग प्रदर्शन में सारस्यार्थ आ सकती हैं। गर्मी के मौसम, तापमान नियंवण को 5-7 "C पर सेट नहीं करें। इससे भी कूलिंग प्रदर्शन में सारस्यार्थ आ सकती हैं।

to the previous temperature. पांदर कुल अधिकतम किन गति पर ठंडा करने की गति को बढ़ा देता है। फ्रीज कई घंटी तक पूरी गति से चलता रहता है और फिर पिछले तापमान पर लौट जाता है। • To activate Power Cool, press and hold Fridge nor 3 seconds. Find corresponding indicator (@) lights up, and the refrigerator will speed up the cooling process for you.

seconds. The fridge returns to the previous temperature setting, पांदा कुल को संक्रिय करते के लिए, Fridge (फिज) को 3 देकंड तक के लिए दबाकर रही। कृत्यूल संकेतक (के) की लाइट पाल हो जाती है, और फिजोटर आपके लिए शीतलन की गिरि को बढ़ा देता है। पांदा कुल को लिक्किय करते के लिए, Fridge (फिज) को 3 संकंड तक के लिए दबाकर रही। ग्रीज पिछली तापमान संटिंग पर लीट जाता है।

सिनश्चित करें कि पानी की टंकी पानी से भरी हो।

↑ WARNING **critisal**

■ Do not put glass bottles containing liquid in the freezer. When cancelling Freezer Convert, the glass bottles may break or burst in the freezer.

■ Make sure to remove frozen foods from the freezer before enabling the Freezer Convert. Frozen foods melt and spoil as the temperature increases (Freezer mode changes to Fridge mode).

■ Make sure to remove chilled foods from the freezer before disabling the Freezer Convert. Chilled foods may freeze as the temperature decreases (Fridge mode changes to Freezer mode).

फ्रीजर में किसी द्रव्य से भरे काँच की बोतल को नहीं रखें। फ्रीजर कन्वर्ट को रद्द करते समय, कांच की

 फ्रीज़र कन्चर्य को सक्षम करने से पहले फ्रीज़र से फ्रोजन खाद्य पदार्थों को हटाना सुनिश्चित करें। तापमान बढ़ने से फ्रोजन खाद्य पदार्थ (फ्रीज़र मोड का फ्रिज़ मोड में परिवर्तन) पिघल कर खराब हो जाते हैं। फ्रीज़र कन्वर्ट को अक्षम करने से पहले फ्रीज़र से जमे हुए खाद्य पदार्थों को हटाना सुनिश्चित करें। तापमान कम होने से ठंडे खाद्य पदार्थ (फ्रिज़ मोड का फ्रीज़र मोड में परिवर्तन) फ्रीज़/जम सकते हैं।

store food, especially vegetables. दि आप फीत कन्वर्ट का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको विशेष रूप से सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों को लास्टिक के कंटेनरों में स्टोर करने की पुरजोर अनुशंसा की जाती है।

(Applicable models only) (केवल उपयुक्त मॉडल)

(Applicable models only) (केवल उपयुक्त मॉडल)

By default, the refrigerator is set to make ice with the corresponding indicator on. To disable this function, press ice On/Off to turn it off.

We recommend disabling the function in the following cases:

We recommend disabling the function in the following safes:

हिण्णे अंतर्ग के स्मान के किए एक प्राप्त के अंतर्ग हिल् वर्ष जमाने के लिए सेट होता है। इस मंजवान की असम करने के लिए, Ice On/Off (बर्फ ऑमडॉक) उपवास इसे और करी। हम निम्न स्थितियों में इस फंकशन को असम करने के जि.

Troubleshooting समस्या-निवारण

General सामान्य Symptom सक्षण

of the filter case, onne of the filter case, onne filter, and then reinsert the case. filter, and then reinsert the case. किस्ट के का अपने और नियन्त्र हिस्सा पकड़े हुए, फिल्टर केस को अनलांक कर लाकि ब्रीयोब्रायक्तर फिल्टर (A) ''क्कर हो सके। फिल्टर बदलें, और फिर केस को पुनः लगा '

गकर्ता दवारा मरम्मत योग्य नहीं होते हैं। रेफ्रिजरेटर का लैंप बदलने

only) डीयोडोराइज़र फ़िल्टर (केवल उपयुक्त मॉडल)

If you encounter an abnormal situation with the refrigerator, first check the table below दि आप रेफ्रिजरेटर के साथ किसी असामान्य स्थिति का सामना करते हैं. तो पहले नीचे प्रदान तालिका देखें और सुझावों को आजमाप

Action कार्य Make sure the power cord is connected properly.
 Make sure the temperature control is set correctly.
 Make sure to keep the refrigerator away from direct so a heat source. Failing to do so may affect the cooling a set of the cooling and the source. Does not operate or संचालन या ठंडा न करें। oling performance. o much food may block the ventilation of the refrigerato keep the refrigerator in normal operation, do not put to much food inside.

मुनिशियन करें कि कित्रकारी की तार सही ढंग से लगी हो।

सुनिशियन करें कि तारमान नियंत्रण सही ढंग से सेट हो।

रेशिज्येंटर को सीधी धूप या गर्मी के सीत दूर रहका सुनिश्यत करें। ऐसा
करने में विकारना के कारण कृतिग प्रदर्शन प्रमोशित हो सकता है।

सुनिश्यत करें कि रिकार्यटर से पीछे और बगान की दीवारी या कैकिनेट
के दूरी पर्यान्त हो। ऐसा करने में विकारता के कारण कृतिग प्रदर्शन
प्रमावित हो सकता है। मा।वत हा सकता ह। स्त्यधिक खादय पदार्थ रेफ्रिजरेटर के वेंटिलेशन को बाधित कर सकता है। अस्वपीक खाद्य पदार्थ रेफिअरेटर के वैदिनेशन को बाँधित कर सकता है। रिफिअरेटर का सामान्य परिचालन बनाए रखने के लिए, अंदर बहुत अधिक खाद्य पदार्थ मही रखें। Check if the temperature control is set to the lowest temperature. If so, change the temperature to higher or optimal or ***
This happens if the ambient temperature is too low. Set the coldest area of the fridge or near the cooling vent. If this happens, move the food to other shelves in the fridge.

जार्चे कि क्या लापमान नियंत्रण को सबसे कम लापमान पर सेट किया गया है। यदि ऐसा हैं, तो लापमान को इससे अधिक या ऑप्टिमल पर या अभि अभि तापमान को उससे अधिक या ऑप्टिमल पर वाले।

यह तब होता हैं, जब परिवेशी लापमान बहुत कम होता हैं। लापमान को

अधिक पर सेट करें। जाँचें कि क्या पानी की अधिक मात्रा वाला भोजन फ्रीज के सबसे ठंडे

Troubleshooting समस्या-निवारण

Temp.

Cold 1

		Symptom लक्षण	Action कार्य
Make sure the refrigerator is installed on a stable, flat surface. Make sure the refrigerator has enough room from the rear and side walls or the cabinet. Make sure to keep the refrigerator from impurities or foreign objects inside or underneath. The refrigerator may produce a ticking sound from inside, which occurs when the various removable parts contract or expand. This is not a system fallow, a system fallow, a specific refrigerator and a system fallow. सुनिश्चिस करें कि रेफिजरेटर किसी स्थिर, समाद सतह पर स्थापित हैं। सुनिश्चिस करें कि रेफिजरेटर से पीछ और बगल की दीवारों या कैकिन्ट की दूरी पर्योग्त हो। सुनिश्चिस करें कि रेफिजरेटर के आंदर या नीच गंदगी या बाहरी वस्तुण न		The water dispenser is not functioning. पानी का डिस्पेंसर काम नहीं कर रहा है।	Check if the water tank is frozen. If so, select a higher fridge temperature. Make sure the water tank is filled with water. Make sure the water tank is installed properly. Make sure the water their is installed properly. जोंचे कि क्या पानी की टंकी जम तो नहीं गई है। यदि ऐसा है, तो उच्चतर फीज ताममान युने। मुनिश्चित कर कि पानी की टंकी जम रहें नहीं शई है। मुनिश्चित कर कि पानी की टंकी पानी से अरी हो। मुनिश्चित कर कि पानी की टंकी जम रहें से स्थापित हो। मुनिश्चित कर कि पानी को टंकी जम रहें से स्थापित हो। मुनिश्चित कर कि पानी का फिल्टर ठीक ताह से स्थापित हो।
		Produces a bubbling sound. बुलबुले की आवाज उत्पन्न करता है।	 The refrigerator makes this sound during the cooling process, which is normal. रेफ्रिजेटर यह आवाज कृतिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न करता है, जो कि सामान्य है।
	पन्न कर सकता है, जो तब उत्पन्न होता है हिस्से सिकुइते या फैलते हैं। यह प्रणाली की	A bad smell comes from inside the refrigerator.	Check for any spoiled food. We recommend cleaning the refrigerator on a regular basis and remove any spoiled or suspect food items. Make sure strong smelling food is wrapped up airtight.
 To prevent condensation from forming, the refrigerator has heat-proof piping in the front corners. If the ambient temperature rises, this equipment may not work effectively. This is not a system failure. Condensation may form on the exterior surface of the 	the front corners. If the ambient quipment may not work effectively, re. on the exterior surface of the	रेफ़िजरेटर के अंदर से बदबू आती हैं।	 किन्हीं खराब हो चुके भोजन के लिए जाँच करें। हम रेफ्रिजेटर को नियमित रूप से साफ करने और किन्हीं खराब या संदित्य खाद्य पदार्थों को हटा देने की अनुशंसा करते हैं। सुनिश्चित करें कि तज़ गांप वाले भोजन वायुस्द तरीके से दके हों।
refrigerator if humid air comes into contact with the cool surface of the refrigerator. • संघ्यनन की रोक्यमान के लिए, रेफिजरेटर के सामने के कोनी में ताप- रोधी पाइए होते हैं। यदि परिवेश तापमान बढ़ जाता है, तो यह उपकरण संभारत- प्रमाणी ढंग से कमा न करों यह पणाली की खराबी नहीं है। रेफिजरेटर की बाहरी सतह पर संघनन हो सकता है यदि नम हवा रेफिजरेटर की ठंडी सतह के सर्चक में आए।		Frost forms on the interior walls. अंदरूनी दीवारों पर तुषार जम जाता है।	Make sure no food blocks the vents of the refrigerator. It is also important to arrange food items evenly for ventilation. Make sure the door is closed properly, गुनिश्चित करें कि नवेंड्र भी खाद्य पदार्थ फिजारेटर के वायु निकास को अवस्द न करो जह भी महत्त्रपूर्ण है कि वायु-संचार के लिए खाद्य पदार्थ समान रूप से रखे गए हो। मुनिश्चित करें कि दरवाजा ठीक ठंग से बंद हो। मुनिश्चित करें कि दरवाजा ठीक ठंग से बंद हो।
 Make sure the ice maker Make sure the freezer is sambient air). Make sure the water tank रेक्निजरेटर के बर्फ बनाने से पर स्निश्चित करें कि बर्फ़ बनाते 	हले आपको 12 घंटे इंतजार करना चाहिए। समय आइस मेकर रुका हुआ न हो। C (या गर्म परिवेशी हवा में -5°C) से कम	Condensation forms on the interior walls or around vegetables. अंदरूनी दीवारी या संक्रियों के चारो तरफ संघनन हो सकता है।	• This happens when food containing a high portion of water is stored uncovered, or the door has been left open for a while. Make sure food is covered or op thi nesaled containers. • यह तब होता है जब पानी की अधिक मात्रा वाला खादप पदार्थ किना हके रखा गया हो, या दरावान कुष समस्य के लिए खुला एंडी दिया गया हो। • सुनिश्चित करें कि खाद्य पदार्थ क्रे हुए ही या बंद डिब्बों में रखे हों।

Operations परिचालन

t. गॉवर कूल का उपयोग विजली की खपत को बढ़ाता है। यदि आपका इसका उपयोग पत्ने का इरादा नहीं है तो इसे ऑफ करना और पिछले लापमान पर लीटना निश्चित करी

पदि आप अवकाश या व्यावसायिक यात्रा पर जा रहे हैं, या यदि आप विस्तारित समय के लिए फ्रिज़ का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो अवकाश मोड का उपयोग

temperature will restore the default 7°C.

• अवकाश मोड़ को सिक्ष्य करने के लिए, Fridge (फिज्र) को चयनित इंडिकेटर

1°C के साथ दबाएं। अवकाश इंडिकेटर (१६) धानु हो आएगा और फिज्र के लायमान का डिस्प्से बंद हो आएगा। फिज्र का लायमान 17°C से नीचे नियंत्रित हो आएगा, लेकिन पहले से सेट किया गया फिज्र सक्तिय रहेगा।

• अवकाश मोड़ को निक्षिय करने के लिए, Fridge (फिज्र) को दोबारा दबाएँ। फीज्र लायमान डिफॉक्ट 7°C पर बहाल हो आएगा।

■ NOTE नोट

इसकी पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि फ्रीज कंपार्टमेंट खाली कर दिया जाए और दरवाज़ा का बंद होना सुनिश्चित हो।

o ensure optimal performance, we recommend seeining the temperature ω optimal of γ

तेज कूलिंग के लिए तापमान कम करने के लिए तापमान नियंत्रण को लेवल 4-5 पर सेट करें।
 तेज कूलिंग के लिए तापमान बढ़ाने के लिए तापमान नियंत्रण को लेवल 1-2 पर सेट करें।

If you are going on vacation or a business trip, or if you do not in to use the fridge for an extended time, use the Vacation mode.

सावधानी शीत ऋतु में, तापमान नियंत्रणको लेवल 4-5 पर सेट न करें। इसके कारण कूलिंग प्रदर्शन में समस्याएं हो

सकती हैं।

गर्मी की ऋत में, तापमान नियंत्रण को लेवल 1-2 पर सेट न करें। इसके कारण भी कूलिंग प्रदर्शन में

an extended time, use the Vacation mode पर्ये आप अवकाश या बितनेस याग पर जा रहे हैं या आपको अतिरिक्त समय तक रेक्रिजरेटर का उपयोग करने की जरुरत नहीं है, तो अवकाश मोड का उपयोग करें। TO activate Vacation mode turn the

अञ्चनकार मोड को सक्रिय करने के लिए Vacation (अवकक्षा) या है। के लिए फ़िज डायल को प्रमाण फिज का तापमान 17 °C के अदर नियंत्रित किया जाएगा लेकिन फ़ीजर पहले सेट फिए गएँ अनुसार सक्रिय बना रहेगा। अनर आप फ़िज का तापमान समायोजित करते हैं, तो अवकार मोड अपने-आप निष्क्रिय हो जाएगा। TYPEB टाइप B

® NOTE नोट

compartment and make sure the door is closed.

सुनिश्चित करें कि दरवाज़ा बंद हो।

To decrease the temperature for strong cooling, set the temperature control to level 4-5.
 To increase the temperature for weak

फ्रिज कंपार्टमेंट को खाली करने की कड़ी अनशंसा की जाती है और

cold 1 2 3 4 5 Coldest

Symptom लक्षण	Action कार्य
The water dispenser is not functioning. पानी का डिस्पेंसर काम नहीं कर रहा है।	Check if the water tank is frozen. If so, select a hig temperature. Make sure the water tank is filled with water. Make sure the water tank is installed properly. Make sure the water filter is installed properly. जार्थ कि क्या पानी की देशी जम तो नहीं गई है। गदि ऐसा उच्चतर प्रीज गप्पामान पूनी उच्चतर प्रीज गप्पामान पूनी स्मृतिचियत कर कि पानी की टंकी पानी से भरी हो। सुनिचियत कर कि पानी की टंकी पानी से स्पाधित हो। सुनिचियत कर कि पानी की हिम्मटर ठेक तरह से स्थाधित हो।
Produces a bubbling sound. बुतबुले की आवाज उत्पन्न करता है।	 The refrigerator makes this sound during the cooli which is normal. रेफ़िजरेटर यह आवाज कृतिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न करत सामान्य है।
A bad smell comes from inside the refrigerator. रेफ़िजरेटर के अंदर से बदब् आती हैं।	Check for any spoiled food. We recommend cleani retrigerator on a regular basis and remove any spouspect food items. Make sure strong smelling food is wrapped up airl किन्दी खराब हो चुके ओवन के लिए जीव करें। हम रेक्कियर निर्माण कर करने और किन्दी खराब या संदिग्ध खन्न करने और किन्दी खराब या संदिग्ध खने हम दे के अनुसंसा करते हैं। मुनिश्चन कर कि ती जा मंध्र वालों ओजन वायुक्द तरीके से क
Frost forms on the interior walls. अंदरनी दीवारों पर तुषार जम जाता है।	 Make sure no food blocks the vents of the refriger also important to arrange food items evenly for Make sure the door is closed properly. भूतिश्चित्त के लिंक लेड़े मी बायुत्त प्रवाद रेफिजरेट के बायु अवस्द न क्यों यह भी महत्वपूर्ण है कि बायु-संचार के लिए समान रूप से राग हों। मुनिश्चित करें कि दरवाजा ठीक ठंग से बंद हो।
Condensation forms on the interior walls or around vegetables. अंदरूनी दीवारों या सब्जियों के चारो तरफ संघनन हो सकता है।	 This happens when food containing a high portion stored uncovered, or the door has been left open of Make sure food is covered or put in sealed contain यह तब होता हैं जब पानी की अधिक मात्रा वाला खादप यां रखा गया हो, या दरवाजा कुछ समय के लिए खुना छोड दिय स्त्रिक्त कर कि खाद्य पदार्थ ढेके हुए हो या बंद डिब्बॉ में

SAMSUNG

Contact SAMSUNG WORLD WIDE से संपर्क करें

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center

अगर Samsung उत्पादों से संबंधित आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियाँ हैं, तो कृपया SAMSUNG ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।

Country देश	Contact Center संपर्क केंद्र	Web Site वेबसाइट
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) Toll-Free 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) Toll-Free	www.samsung.com/in/support
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	09612300300 08000300300 (Toll free)	www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	+9411SAMSUNG (+94117267864) +94117540540 +94115900000	www.samsung.com/in/support

This Product is RoHS compliant यह उत्पाद RoHS अनुवर्ती है।



The Warranty shall be null and void in any of the following cases, and in such cases Samsung may at its sole discretion repair the equipment on a chargeable basis. The decision of Samsung, whether a complaint falls in any of these categories or not shall be binding on the Purchaser. The dully filled warranty card/proof of purchase is not presented to the service engineer at the time of repairs being

Lamps लेंप

undertaken / requested.

The original serial number of the product is removed, altered or obliterated from the product. The product purchased is not used as per the rated power conditions or instructions mentioned in the INSTRUCTION

The product is being used for commercial purpose OR if the product has been used excessively and beyond reasonable

usage as permitted within the product instruction manual.

Site (premises where the product is used/ kept) conditions that do not conform to the recommended operations of the product Defects caused due to exposure to moisture/dampness/extreme thermal or environmental conditions or rapid changes in such of conditions/corrosions/oxidations/spilling of food/liquid/influence of Chemical substances. Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, spikes, external sources (ex: cable/set top box

connections), fire, water lógging, natural calamities, commotion, riots, theft, anti-social action, acts of God or while in transit. Defects caused by household pets, rats, cockroaches, ants, pests, fungi or any other animal/birds/insects.

Defects caused due to negligence/omission of the Purchaser on account of periodic maintenance(s)/periodic servicing as mentioned in the instruction manual of the product. Defects caused due to usage of third party material/non Samsung Authorized Consumables.

Any modifications, including but not limited to, rooting attempts, reverse engineering, unlocking, jail-breaking etc. of the original firmware(s) or software(s) of the product.

Repair due to misuse/third party repair attempts are not covered in warranty.

Warranty does not cover repair due to external factors/mediums/data types.

Warranty shall apply only if the product is used as per its usage specifications (ex: personal, commercial etc.) Warranty shall be void if product has failed under certain conditions/types (ex: water logging, misuse, etc.)

All disputes arising out of this warranty are subject to Delhi jurisdiction only. Warranty period commences from the date of purchase of the product unless specified otherwise.

Product Group	Product Description	Warranty Period (Months)	Parts/Accessory Warranty(if applicable)	
	Room/Split Air Conditioner/ Floor Standing Air Conditioners (FAC)	12	Compressor: 60 months (120 months for Digital Inverter Compressor) * Condenser: 60 months (12 months for Fin & Tube type) *	
	Window Air Conditioner	12	60 Months on Compressor [#]	
۸۵	Duct Type Air Conditioner	15*	36 Months on Compressor*	
AC	Cassette Air Conditioner	15*		
	FJM	15*		
	Indoor DVM & Outdoor DVM	12**	12 Months on Compressor*	
Ventilation	ERV	12**		
Dish Washer	Dish Washer	12		
Microwave	Microwave	12	120 Months on Ceramic Enamel Cavity [#]	
Refrigerator	Refrigerator	12	Compressor : 60 months (240 months for Digital Inverter Compressor)*	
	Semi Automatic	24	Wash Motor : 60 months on Semi Automatic Wash Motor #	
Washing Machine	Rear control panel Top Loading Fully Automatic	24	AC Motor : 120 months # Digital Inverter Motor : 240 months #	
	Front control panel Top Loading Fully Automatic	24	(Applicable for Rear & Front Control Panel models with Wobble Pulsator) #	
	Fully Auto Front Loading	24	Universal motor : 60 months * Digital Inverter Motor : 240 months *	
Vacuum Cleaner	Vacuum Cleaner	12		
Air Cleaner	Air Cleaner	12	Warranty not applicable on Air Purifier Filters	
Dryer	Dryer	12		

15 Months from date of purchase or 12 months from installation, whichever ends early. **12 Months from date of commissioning In case of parts warranty, labour cost and gas charging cost(if applicable) will be chargeable as per the applicable rates.

Correct disposal of the product (Waste Electrical & Electronic Equipment) This marking on the product, accessories or literature indicates that the electronic accessories (e.g. charger, headset, and USB cable) should not be dispose with other household waste at the end of their working life.

For more information on safe disposal and recycling visit our website or contact number. SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED Registered Address:6th Floor,DLF Centre, Sansad Marg,New Delhi-110001,Visit: www. samsung.com/in

6801-001984-2

Customer's Signature & Date (I accept the Terms & Conditions of warranty) Samsung Helpline - Call : 1800 40 SAMSUNG (7267864) / 1800 5 SAMSUNG (7267864)

Dealer 's Signature with rubber stamp

Customer copy (to be retained by customer